



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 13—मार्च 19, 2011, शनिवार/फाल्गुन 22—फाल्गुन 28, 1932  
No. 12] NEW DELHI, MARCH 13—MARCH 19, 2011, SATURDAY/PHALGUNA 22—PHALGUNA 28, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011

**सा.का.नि. 93.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियमावली, 2010 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियमावली, 2010 में,—

(क) नियम 1 के अन्तर्गत, उप नियम (1),—

(i) शब्द “कार्यालयों” के स्थान पर शब्द “कार्यालय” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्द “कार्यालय” के स्थान पर शब्द “कार्यालयों” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची में,—

- (i) कालम (3) में शब्द “अनुसचिवीय” के स्थान पर शब्द “अनुसचिवीय” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) कालम (8) में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

“(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य योग्यता ।

- (ii) केवल कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक :

(क) अंग्रेजी टंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट;

अथवा

(ख) हिन्दी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट;

(निर्धारित समय 10 मिनट)”

(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट का अर्थ है प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेसन्स के औसत से 10500 की-डिप्रेसन्स प्रति घंटा/9000 की-डिप्रेसन्स प्रति घंटा)

- (ग) कालम (12) में शीर्षक “विभागीय अर्हक परीक्षा” के अन्तर्गत, टिप्पणी में शब्द “dubsequent” के स्थान पर शब्द “subsequent” प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. ए-16011/5/2000-प्रशा.-II/V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

**टिप्पणी :** मूल नियम सा.का.नि. सं. 1 दिनांक 1 जनवरी, 2011 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 11th March, 2011

**G.S.R. 93.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Offices of the Registrar General, India and the Office of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and the Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Offices of the Registrar General, India and the Office of the Director of Census Operations in States and the Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment Rules, 2010,—

(a) in rule 1, in sub rule (1),—

- (i) for the word “offices”, the word “office” shall be substituted;
- (ii) for the word “office”, the word “offices” shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

- (i) in column (3) for the words “Non Ministerial”, the word “Ministerial” shall be substituted;
- (ii) in column (8) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University.

- (ii) Skill test norms only on computers :

(a) English Typing @ 35 words per minute;

Or

(b) Hindi Typing @ 30 words per minute.

(Time allowed 10 mts.)”

(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word);

- (c) in column (12), under the heading “Departmental qualifying examination”, in the Note, for the word “dubsequent”, the word “subsequent” shall be substituted.

[F. No. A-16011/5/2000-Ad. II/V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 1, dated the 1st January, 2011.

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2011

**सा.का.नि. 94.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 2007 [भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 48, तारीख 9 मार्च, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 17 मार्च, 2007 में प्रकाशित] को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय बहु कार्य कर्मचारिवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—(1) ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय के पदों को लागू होंगे।

**3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य कर्मचारिवृन्द और राजमार्ग मंत्रालय-142 पोत परिवहन मंत्रालय-57	199* (2011) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय-142 पोत परिवहन मंत्रालय-57	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन बैंड 1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न कि वह अंतिम तारीख

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(7)

जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य

लागू नहीं होता

दो वर्ष

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन्हें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

**पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**

लागू नहीं होता।

1. अवर सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी (स्थापना), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय —सदस्य
3. किसी अन्य विभाग/मंत्रालय से अनुभाग अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/1/2010-स्था. 1(ख)]

देव राज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

New Delhi, the 8th March, 2011

**G.S.R. 94.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2007, [published vide Government of India, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, notification number GSR 48 dated 9th March, 2007 in the Gazette of India dated the 17th March, 2007] except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-tasking Staff in the Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping Multi Tasking Staff, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts in the Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, Pay Band and Grade pay.**—The number of said posts, their classification, the grade pay and pay band attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

**7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mutli-Tasking Staff	199* (2011) 142-Ministry of Road Transport & Highways 57-Ministry of Shipping	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200)+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

\*Subject to variation dependent on workload.

(7)		
<p>Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>		
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation pass from a recognized Board or equivalent.	Not applicable	Two years
<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	
(11)	(12)	
By direct recruitment	Not applicable	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(13)	(14)	
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :—</b>	Not applicable.	
1. Under Secretary Ministry of Road Transport and Highways	—Chairman	
2. Section Officer (Establishment) Ministry of Road Transport and Highways	—Member	
3. Section Officer from other Department/Ministry	—Member	

[F. No. A-12018/1/2010-E.1 (B)]

D. R. SHARMA, Under Secy.

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

**सा.का.नि. 95.**—डीओपीटी के दिनांक 23-2-2011 के का. ज्ञापन सं. 7/3/2010-ईओ (एम.एम.-1), जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत, पे बैंड-3 (15600-39100 रु.) सम्बद्ध ग्रेड पे 7600 रु. के वेतनमान में उप-सलाहकार के तीन पदों तथा पे बैंड-4 (37400-67000 रु.) सम्बद्ध ग्रेड पे 8700 रु. के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार के एक पद के संवर्गीकरण हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रस्ताव के संबंध में है, के अनुसरण में, इन पदों को डीओपीटी द्वारा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत क्रमशः पे बैंड-3 (15600-39100 रु.) सम्बद्ध ग्रेड पे 7600 रु. तथा पे बैंड-4 (37400-67000 रु.) सम्बद्ध ग्रेड पे 8700 रु. के वेतनमान में भरा जाएगा।

2. उप-सलाहकार और संयुक्त सलाहकार के पद के संबंध में दिनांक 27-3-1991 के सा.का.नि. सं. 255 एवं 256 के तहत अधिसूचना सं. ए-12018/4/89-प्रशा. के जरिए अधिसूचित भर्ती नियमावली को एतद्वारा वापस लिया जाता है।

[सं. ए-12011/1/2010-प्रशा.-1]

अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**

New Delhi, the 10th March, 2011

**G.S.R. 95.**—In pursuance of DOPT's OM No. 7/3/2010-EO (MM-I), dated 23-2-2011 regarding M/o Statistics and PI's proposal of encadrement of four (4) posts of Deputy Advisor in the scale of Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) attached grade pay of Rs. 7600 and one (1) post of Joint Advisor in the scale of Pay Band-4 (Rs. 37400—67000) attached grade pay of Rs. 8700 under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (PI Wing), these posts will be filled under Central Staffing Scheme by DOPT in the scale of Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) attached grade pay of Rs. 7600 and Pay Band-4 (Rs. 37400—67000) attached grade pay of Rs. 8700 respectively.

2. The Recruitment Rules notified vide Notification no. A-12018/4/89-Admn. under GSR No. 255 and 256 dated 27-3-1991 pertaining to the post of Deputy Advisor and Joint Advisor hereby stand withdrawn.

[No. A-12011/1/2010-Admn. I]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.